

# 維摩經 Vimalakīrti Nirdeśa

Buddhakṣetrapariśuddhinidānaparivarta

६ ८ ४ २ ५ ५ ७ ८ ९ ३ ४ ५ ६ १

淨佛國土品

佛國品第一

namah sarvabuddhabodhisatvebhyah //

० ५: स ते श व व व अ म इ शः //

帰命 一切佛菩薩

§ 1

evam mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān

८ ८: म य श व म / ए क अ श म म य न ग व श

vaiśālyām viharati sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusam-

व श श श श श, श श श श श श श श -

ghena sārdham astābhīr bhikṣusahasraiḥ,

८ ९: म व म श श श श श श श श श ,

如是我聞。一時佛在毘耶離菴羅樹園。與大比丘衆八千人俱。

§ 2

sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair nihkleśair vaśībhūtaiḥ

८ १०: म द श श श श श श श श श श श श श ,

suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ

८ ११: म श श श श श श श श श श श श श श श ,

kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprā-  
 কৃতকৃত্যানি কৃতকরণীয়ানি অপহর্তব্যারাই অনুপ্রা-  
 ptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhabavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimu-  
 প্রশংসনাথে পরিক্ষিণভববাসম্যোজনানি সম্যগাজ্ঞাসুভি-  
 ktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ,  
 সর্বচেতোশিপরামাপারমিপ্রাপ্তানি,

§ 3

dvātrimśatā ca bodhisatvasahasrair abhijñānābhijñātaiḥ  
स द्वात्रिम्शता च बोद्धिसत्त्वसहस्रैः अभिज्ञानाभिज्ञातायै  
sarvair mahābhijñāparikarmaniryātaiḥ, buddhādhiṣṭhānādhiṣṭhi-  
मर्यादा मनुक्षेपत्रकम्भिर्यातीयैः, एव द्वात्रिम्शता च-  
taiḥ, saddharmanagarapālaiḥ, saddharmaṇaparigrāhakaiḥ, mahā-  
र्यातीयैः, मर्यादा मर्यादा प्राप्तैः, मर्यादा प्राप्तैः शान्तैः, मर्या-  
simhanādanādibhiḥ, daśadigvighuṣṭaśabdaiḥ, sarvasatvānadhye-  
श्चिन्दनादानादिभैः, दशदिग्विघुष्टाशब्दैः, मर्यादा मर्यादा प्रा-  
śitakalyāṇamitraiḥ, triratnavamśānupacchetṛbhiḥ, nihatamā-  
र्यादाक्षराण्याधिर्यातीयैः, त्रिरत्नवम्शानुपचेत्रभैः, निहतमा-  
र्यादाप्रत्यार्थिकैः, sarvaparapravādyanabhibhūtaiḥ, smṛtisamādhi-  
र्यादाप्रत्यार्थिर्यातीयैः, मर्यादा प्रत्यार्थिर्यातीयैः, शूलमर्यादा  
dhāraṇīsampannaiḥ, sarvanivaranaparyutthānavigataiḥ,  
सर्वनिवरणपर्युत्थानविगतायैः,  
सर्वरूपालीभैः, मर्यादा प्रत्यार्थिर्यातीयैः,

anāvaraṇavimokṣapratīṣṭhitaiḥ, anāccchedyapratibhānaiḥ,  
मनवराणविमोक्षप्रतीष्ठातैः, मनाच्छेद्यप्रतिब्धानैः,  
dānadamaniyamasamāyaṁyamaśīlakṣāntiviryadhyānaprajñopāyanī-  
सदनमध्यमसंयमभावुष्टिर्हुप्रश्नप्रथम-  
ryātaiḥ, anupalambhānutpattikadharmaṁkṣāntisamanvāgataiḥ,  
हुप्रश्न, मनपलमध्यमसंयमभावुष्टिर्हुप्रश्नप्रथम-  
avaivartikadharmaṁkrapravartakaiḥ, alakṣaṇamudrāmudritaiḥ,  
मर्विवर्तिकप्रश्नरक्षणवासां, मलक्षणमुद्रामुद्रितैः,  
sarvasatvendriyajñānakuśalaiḥ, sarvaparṣadanabhibhūtavaiśā-  
सदसमविक्रामिभिः, mahāpuṇyajñānasamāṁbhāropacitaiḥ, lakṣaṇā-  
रक्षणभिः, महापुण्यज्ञानसमाम्भारपत्रैः, लक्षण-  
nuvyāñjanasamalamkṛtakāyaiḥ, paramarūpadhāribhiḥ, apa-  
श्नप्रश्नसमर्विवर्तिकैः, परमरूपदर्शकैः, मन-  
gatabhūṣaṇaiḥ, meruśikharābhuyudgatayaśahkīrtisamudga-  
गत्तर्हुषाणैः, शुभ्राभुष्टिर्हुप्रथमवासांमुद्रामुद्र-  
taiḥ,  
कैः,

菩薩三萬二千。衆所知識。大智本行皆悉成就。諸佛威神之所建立。爲護法城受持正法。能師子吼名聞十方。衆人不請友而安之。紹隆三寶能使不絕。降伏魔怨制諸外道。悉已清淨永離蓋纏。心常安住無礙解脫。念定總持辯才不斷。布施持戒忍辱精進禪定智慧。及方便力無不具足。逮無所得不起法忍。已能隨順轉不退輪。善解法相知衆生根。蓋諸大衆得無所畏。功德智慧以修其心。相好嚴身色像第一。捨諸世間所有飾好。名稱高遠踰於須彌。

dṛḍhvajrādhyāśayābhedyabuddhadharmaprasādapratilabdhaiḥ,  
द रुद्राद्युषीभयरुक्ते एवंश्चमन्त्रप्रतिष्ठानैः,  
dharmaratnavikaraṇāmr̥tajalasampravarṣakaiḥ, sarvasatvaru-  
पंश्चरवेत्कर्मण्वाग्नात्मसंषवधैः, मर्त्सन्तु-  
taravitasvarāṅgaghoṣaviśuddhasvaraiḥ, gambhīradharmapratītyā-  
त्तरात्मानान्तदर्शिवासनानुसम्भिसमुच्चिन्नात्, vigatabha-  
वासिंहोपामानादिभिः, tulyātulyasamatikrāntaiḥ, dharmaratna-  
यस्त्रिप्रज्ञात्मनसंघर्षात्, लगान्-  
yasimhopamanādibhiḥ, rjusūkṣmamṛdudurdrśā-  
प्रज्ञात्मनात्मनसंघर्षात्, रुद्रमुक्त्वा द्विभ-  
प्रज्ञात्मनात्मनसंघर्षात्, रुद्रमुक्त्वा द्विभ-  
duranubodhasarvadharmaśalaiḥ, āgatisatvāśayamatim ·  
दुर्ब्रवप्रविष्टजनानविशयिभिः, अगत्यात्मनसंघर्षात्  
anupraviṣṭajñānnaviśayibhiḥ, asamasamabuddhajñānābhiṣe-  
मनसंघर्षात्, समाप्तसंघर्षात्  
kābhisiktaiḥ, daśabalavaiśāradadyāvenīkabuddhadharmādhyāśaya-  
गतात्, सर्वापायदुर्गतिविनिपातक्षितपरिक्षात्  
gataiḥ, samcintya-  
गतात्, मर्त्सन्तुरुद्राद्युषीभयरुक्ते एवंश्चमन्त्रप्रतिष्ठानैः, मंसि शु-

bhavagatyupapattisamdarśayitṛbhiḥ, mahāvaidyarājaiḥ, sarva-  
 न द ग इ प प ति सं द स धि त रु, म न व ई कु र ा, स द-  
 satvavinayaavidhijñaiḥ, yathārhadharmahaiṣajyaprayogaprayuktaiḥ,  
 स द उ र य त ल खः, य अ द ए श र ष ष अ ग ष य ष,  
 anantaguṇākarasamanvāgataiḥ, anantabuddhakṣetraguṇavyū-  
 श व म र ग र स म र ग ष, स द व इ द द ग ग ष-  
 hasamalamkrtaih, amoghaśravaṇadarśanaiḥ, amoghapadavi-  
 न स म ल ष ष, स श य श व ग द द ष, स श य द द ष-  
 kramaiḥ, aparimitakalpakoṭīnyutaśatasahasraguṇapa-  
 र ष, स द त य ए न द ष ष ल द य ए न द य ए स द स ग ग द-  
 rikīrtanāparyantaguṇaughaiḥ,/

#### ४३ त्रिप्राप्तिगम्यः, /

深信堅固猶若金剛。法寶普照而雨甘露。於衆言音微妙第一。深入緣起斷諸邪見。有無二邊無復餘習。演法無畏猶師子吼。其所講說乃如雷震。無有量已過量。集衆法寶如海導師。了達諸法深妙之義。善知衆生往來所趣及心所行。近無等等佛自在慧十力無畏十八不共。關閉一切諸惡趣門。而生五道以現其身。爲大醫王善療衆病。應病與藥令得履行。無量功德皆成就。無量佛土皆嚴淨。其見聞者無不蒙益。諸有所作亦不唐捐。如是一切功德皆悉具足。

#### § 4

tadyathā samadarśinā ca nāma bodhisatvena mahāsa-  
 ग ष ष ष स म द ष ष ए न द य ए न द य ए स द स-  
 tvena, samaviśamadarśinā ca, samādhivikurvaṇarājena  
 द ए, स म द य म द ष ष ए, स म द य ष ष ष ए न द  
 ca, dharmeśvareṇa ca, dhairmaketunā ca, prabhāketunā  
 ए, ए श ष ष ए, ए श क र ए, ए श क र ए

ca, prabhāvyūhena ca, mahāvyūhena ca, ratnakūṭena  
ৰ, প্ৰভাৰ্যুহেনা র, মহাব্যুহেনা র, রত্নকুটেনা  
ca, pratibhānakūṭena ca, ratnamudrāhastena ca, nityo-  
ৰ, প্ৰতিভানকুটেনা র, রত্নমুদ্ৰাহস্তেনা র, নিত্য-  
tkṣiptahastena ca, nityotpalakṛtahastena ca, nityotkaṇṭhi-  
ক্ষিপ্তহস্তেনা র, নিত্যোপলকৃতহস্তেনা র, নিত্যোক্তি-  
tena ca, nityaprahasitapramuditendriyena ca, prāmodya-  
ৰ, নিত্যপ্ৰহাসিতপ্ৰমুদিতেন্দ্ৰিয়েনা র, প্ৰামোদ-  
rājena ca, devarājena ca, prañidhiprayātaprāptena ca,  
ৰাজেনা র, দেবৰাজেনা র, প্ৰাণিদ্বিপ্ৰযাতাপ্ৰাপ্তেনা র,  
pratisamvitprañādaprāptena ca, gaganagañjena ca,  
প্ৰতিসম্বিতপ্ৰাণাদাপ্ৰাপ্তেনা র, গগণগঙ্গজেনা র,  
ratnolkādhārinā ca, ratnavīrena ca, ratnaśriyā ca,  
ৰ, রত্নলক্ষ্মীরেনা র, রত্নশ্ৰীৱৈনা র, রত্নপ্ৰভেনা র,  
ratnanandinā ca, indrajālinā ca, jālinīprabheṇa ca,  
ৰ, রত্ননন্দিনা র, উদ্রজালিনা র, জালিনীপ্ৰভেনা র,  
anārambaṇadhyāyinā ca, prajñākūṭena ca, ratnajahena  
মাৰপ্ৰামৰ্মণাধ্যায়ীনা র, প্ৰজ্ঞাকুটেনা র, রত্নজাহেনা  
ca, mārapramardinā ca, vidyuddevena ca, vikurvanarā-  
ৰ, মাৰপ্ৰামৰ্মণেনা র, বিদ্যুদ্দেবেনা র, বিকুৰ্বনৱা-  
ৰ

jena ca, lakṣaṇakūṭena ca, lakṣaṇakūtaśamatikrāntena  
ग ए र, शुद्धिकृत ए, शुद्धिकृतमनुकृत  
ca, simhaghoṣābhigarjitasvareṇa ca, śailaśikharasamghatṭa-  
र, अंदधिगुरुगालगच्छरण र, अंदधिगुरुमध्येष-  
narājena ca, gandhahastinā ca, gajagandhahastinā ca,  
शुद्धिकृत र, गद्धकृत र, गजगद्धकृत र,  
satatodyuktena ca, anikṣiptadadhureṇa ca, sumatinā ca,  
मात्राहृष्टर, मधुकृष्टपृष्ठर, ममवृष्टर,  
sujātena ca, padmaśrīgarbheṇa ca, padmavyūhena ca,  
मूर्खर, पञ्चशीगर्भर, पञ्चशूदर, पञ्चलिङ्ग  
avalokiteśvareṇa ca, mahāsthāmaprāptena ca, brahmajālinā  
मरत्रापथरण र, मनश्चमध्येष र, एश्वराणुर  
ca, ratnayaṣṭinā ca, mārajitena ca, kṣetrālamkṛtena  
र, रथधृष्टर, मरत्रापथर, क्षेत्रालम्कृत  
ca, mañiratnacchatreṇa ca, suvarṇacūḍena ca, mañicū-  
र, मण्डेष्टकरण र, मरत्रापथर, मण्ड-  
dena ca, maitreyeṇa ca, mañjuśriyā ca kumārabhūtena  
रुष र, श्वरथरण र, महामृतर र ममरुषर  
bodhisatvena mahāsatvena, evampramukhair dvātrimśatā<sup>३५</sup>  
श्वरुषर मनमृतर, एवं प्रमुखर्णु द्वात्रिंशता

bodhisatvasahasraiḥ/

### ବ୍ୟାକ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା /

其名曰等觀菩薩。不等觀菩薩。等不等觀菩薩。定自在王菩薩。法自在王菩薩。法相菩薩。光相菩薩。光嚴菩薩。大嚴菩薩。寶積菩薩。辯積菩薩。寶手菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常慘菩薩。喜根菩薩。喜王菩薩。辯音菩薩。虛空藏菩薩。執寶炬菩薩。寶勇菩薩。寶見菩薩。帝網菩薩。明網菩薩。無緣觀菩薩。慧積菩薩。寶勝菩薩。天王菩薩。壞魔菩薩。電德菩薩。自在王菩薩。功德相嚴菩薩。師子吼菩薩。雷音菩薩。山相擊音菩薩。香象菩薩。白香象菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。妙生菩薩。華嚴菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。梵網菩薩。寶杖菩薩。無勝菩薩。嚴土菩薩。金髻菩薩。珠髻菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是等三萬二千人。

§ 5

daśabhiś ca brahmaśaḥasraiḥ jaṭibrahmapramukhaiḥ,  
ଦଶବିଶ୍ୱାସ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଶହୀରୁ ଜାଟିବ୍ରାହ୍ମପ୍ରମୁଖାଇଁ,  
anekāc caturmahādvīpakāl lokadhātor abhyāgatair  
ଅନେକାଳୀ ଚତୁରମହାଦ୍ଵିପକାଳୀ ଲୋକାଧାତୋ ଅଭ୍ୟାଗତାଇ  
ମଧ୍ୟଶରୀରୀପକାଳୁ ଶ୍ରୀକରଣାରୁ ମଞ୍ଜଳୀରୁ  
bhagavato darśanāyai vandanāyai paryupāsanāyai dharma-  
ଭଗବାତୋ ଦର୍ଶନାୟୀ ବନ୍ଦନାୟୀ ପର୍ଯୁପାସନାୟୀ ଧର୍ମ-  
śravaṇāya ca/ te tatraiva parṣadi samnipatitāḥ/ dvādaśa  
ଶ୍ରୀରାଣ୍ୟ ଏ/ତ ତତ୍ରାଇ ପର୍ଷଦି ସମନ୍ତିତାଃ/ ଦ୍ଵାଦଶ  
ca śakrasaḥasrāṇy anyānyebhyaś caturmahādvīpakebhyo  
ଏ ଶକ୍ରଶାହୀରୁ ମଞ୍ଜଳୁ ଏ ଦ୍ଵିପକାଳୀ ପର୍ଷଦୁ  
'bhyāgatāni tatraiva parṣadi samnipatitāny abhū-  
'ଶ୍ରୀରାଣ୍ୟ ତତ୍ରାଇ ପର୍ଷଦି ସମନ୍ତିତାନ୍ୟ ମଞ୍ଜଳୁ  
van/ tathanye 'pi maheśākhyamaheśākhyāḥ śakrabrahma-  
ଦୁଃ/ମଧ୍ୟଶ୍ରୀ ପର୍ଷଦି ମଞ୍ଜଳୁ ମଞ୍ଜଳୁ ମଞ୍ଜଳୁ

lokapāladevanāgayaṅkṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahora-  
 न पत्र इव वाग्यदक्षं रुद्रं चरणं त्रिशङ्कु-  
 gās      tatraiva    parṣadi      saṁnipatitā      abhūvan      saṁnişa-  
 गाम् न त्रिश धर्मक्षमं देवं पर्वतं त्रिश-  
 nūnāḥ/tathā    catasraḥ    parṣado    bhikṣubhikṣunyupāsakopāsikāś  
 क्षः / त्रिश वाग्यः धर्मक्षमं त्रिशक्षुद्वयं पर्वतं त्रिश-  
 copasamkrāntā      abhūvan/

# କପପମ୍ବରୀ ମହିତୀ /

復有萬梵天王尸棄等。從餘四天下來詣佛所而聽法。復有萬二千天帝。亦從餘四天下來在會坐。并餘大威力諸天·龍神·夜叉·乾闥婆·阿脩羅·迦樓羅·緊那羅·摩睺羅伽·等悉來會坐。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐。

ss 6

tatra bhagavān anekaśatasahasrayā parṣadā<sup>१</sup>  
 प त्र भगवान् अनेकशतसहस्रया पर्षदा  
 parivṛtah puraskṛto dharmam̄ deśayati sma/ sumerur  
 परिवृतः पुरास्कृतो धर्मम् देशयति स्मा/ सुमेरुर  
 iva parvatarājah sāgaramadhyād abhyudgataḥ sarvaparṣa-  
 ण व पर्वतराजः सागरमध्याद् अभ्युदगतः सर्वपर्ष-  
 dam abhibhūya bhāsate tapati virocate śrīgarbhe  
 अभ्यु श्रीगर्ब्हे अभ्यु अभ्यु अभ्यु अभ्यु अभ्यु अभ्यु  
 simhāsane nisannah/

## ਅੰ ਨ ਸ ਥ ਖ ਏ ਕ੍ਰ: /

彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而爲說法。譬如須彌山王顯于大海。安處衆寶師子之座。蔽於一切諸來大衆。

§ 7

atha ratnākaro bodhisatvo licchavikumāraḥ sārdham  
 मथ रथकरो बुद्धसत्त्वो लिच्छविकुमारः सर्द्धम्  
 pañcamātrair licchavikumāraśataih saptaratnamayāni  
 पञ्चमात्रैः लिच्छविकुमारशतैः सप्तरत्नमयानि  
 cchatrāṇi gr̥hitvā vaiśālyām mahānagaryām niṣkramya yena-  
 क्षत्राणे गृहित्वा वैशालीम् महानगर्याम् निष्क्रम्या येन-  
 mrapālīvanam yena ca bhagavāṁs tenopasamkrāmat/  
 प्रपलीवनम् येन च भगवांस तेनोपसम्क्रामत/  
 upasamkrāmya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagava-  
 उपसम्क्राम्य भगवान् विजित्वा वंदित्वा भगव-  
 ntam saptakṛtvah pradakṣinīkṛtya yathā parigṛhītais  
 प्रपलीवनम् भगवान् विजित्वा वंदित्वा भगव-  
 taiś chatrair bhagavantam abhicchādayati sma/abhi-  
 त्वा च भगवान् विजित्वा वंदित्वा भगव-  
 cchādyai kānte sthito 'bhūt/  
 भगवान् विजित्वा वंदित्वा भगव-

爾時毘耶離城有長者子。名曰寶積。與五百長者子俱。持七寶蓋來詣佛所。頭面禮足。各以其蓋共供養佛。

§ 8

samantaraniḥsr̥ṣṭāni ca tāni ratnacchatrāṇy atha  
 समन्तरानिःस्रष्टानि च तानि रत्नचत्राण्य अथा

tāvad eva buddhānubhāvenaikam mahāratnacchatram  
**ଗର୍ବ ଏବ ସମ୍ବନ୍ଧରେତେକ**      **ମନ୍ଦରେକରୁ**  
 samsthitam/ tena ca mahāratnacchatrenayam trisāhasramahā-  
 sāhasro lokadhātuḥ sarvah samchāditah samdr̥syate sma/yaś  
 casmīms trisāhasramahāsāhasre lokadhātāv āyāmavi-  
**ରାଶିମୁ ପ୍ରମନ୍ଦଶମନମନ୍ଦଶ ଶୂନ୍ଯାଗରୁ ମଧ୍ୟମତ୍ତେ**  
 stārah, sa tasmin mahāratnacchatre samdr̥syate sma/ye  
 ମହା, ମନ୍ଦରୀର ମନ୍ଦରେକରୁ ମନ୍ଦଶୂନ୍ଯା ମୁଖୀରୁ ମନ୍ଦରୁ  
 ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sumeravo mahā-  
 ଯନ ପ୍ରମନ୍ଦଶମନମନ୍ଦଶ ଶୂନ୍ଯାରୀ ମନ୍ଦରୀରୁ ମନ୍ଦରୁ  
 parvatarājā himavanmucilindamahāmucilindagandhamāda-  
**ପଦାରାଜୀ କୁମରଶୂନ୍ଯରେତେକରୁ ମନ୍ଦରୀରୁ**, ତେ 'pi  
 naratnaparvatā vā cakravāḍamahācakravāḍāḥ, te 'pi  
**ଏକରାତ୍ମକ ଏକରାତ୍ମକ ଏକରାତ୍ମକ, ତେ 'ପୀ**  
 sarve tasminn evaikamahāratnacchatre samdr̥syante sma/  
 ମହା ଗର୍ବଶୂନ୍ଯ ଏକରାତ୍ମକ ଏକରାତ୍ମକ ମନ୍ଦଶୂନ୍ଯ ମୁଖୀ  
 ye 'piha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudrā  
 ଅଭ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମନ୍ଦଶମନମନ୍ଦଶ ଶୂନ୍ଯାରୀ ମନ୍ଦରୀରୁ

vā sarastaḍāgāni vā nadīkunadyah sravantyo vā prava-  
त स रु महान् द त ए क्षीकृष्ण श्रवण्ड त प्रव-  
hanti, tā api sarvās tasminn evaikamahāratnacchatre  
द त, ग मध्य महामूर्त्यु ए विक्रमदत्त ए क्षेत्र  
samdṛsyante sma/yāny apiha trisāhasramahāsāhasre  
संदृश्यते अ/यान्य अपि ह त्रिसाहस्रमहासाहस्र  
lokadhātau sūryācandramasām vimānāni tārārūpāṇi vā<sup>१</sup>  
३ त ए त भूम्य ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
devabhavanāni vā nāgabhavanāni vā yakṣabhavanāni  
४ त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
vā gandharvāsuragaruḍakinnaramahoraghavanāni vā<sup>२</sup>  
५ त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
cāturmahārājabhavanāni vā grāmanagaranigamarāśṭra-  
६ त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
rājadhānyo vā, tāny api sarvāṇi tasminn evaikama-  
७ त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
राजात्मा, ग अ मध्य महाल ग अ अ ए विक्रमदत्त त  
hāratnacchatre samdṛsyante sma/yapi ca daśadiśi loke  
८ त ए त ए त ए त ए त ए त ए त ए त  
महाराजक्षेत्र संदृश्यते अ/यान्य ए विक्रमदत्त त  
bhuddhānām bhagavatām dharmadeśanā pravartate, sapi  
९ त ए त ए त ए त ए त  
श्रवण दग्धां ए विक्रमदत्त ए विक्रमदत्त, मध्य

tasmād evaikamahāratnacchatrān niścarantī śrūyate sma/

ତ୍ରୈ ପାଦିକମନ୍ତ୍ରାଣକରୁ ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

佛之威神令諸寶蓋合成一蓋。遍覆三千大千世界。而此世界廣長之相悉於中現。又此三千大千世界。諸須彌山雪山。目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山。香山寶山金山黑山。鐵圍山大鐵圍山。大海江河川流泉源。及日月星辰。天宮龍宮。諸尊神宮。悉現於寶蓋中。又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中。

§ 9

tatra sā sarvā parṣad āścaryaprāptā bhagavato

ତ୍ରୈ ମହା ପାଦି ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

'ntikād idam evaṁrūpaṁ mahāprātihāryam dr̄ṣṭvā tuṣṭo-

'ତ୍ରୈ ତୁମ୍ଭୁ ପାଦି ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

dagrattamanāḥ pramuditā prītisaumanasyajātā tathāgataṁ

ତ୍ରୈ ମନ୍ତ୍ରାଣକରୁ ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

namasyatī sthitanimiṣam prekṣamāṇā/

ତ୍ରୈ ମନ୍ତ୍ରାଣକରୁ ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

爾時一切大衆。覩佛神力歎未曾有。合掌禮佛瞻仰尊顏目不暫捨。

§ 10

atha khalu ratnākaro licchavikumāro bhagavato

ତ୍ରୈ ଗଣ ରାଜକୋ ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

'ntikād idam evaṁrūpaṁ mahāprātihāryam dr̄ṣṭvaikāṁsam

'ତ୍ରୈ ତୁମ୍ଭୁ ପାଦି ଲଥିରୀ ଶୁଧା ଅ/

uttarāsaṅgam kṛtvā dakṣinām jānumaṇḍalam pr̄thivyām

ତ୍ରୈ ଗଣ ଗଣ ଦକ୍ଷିନ ରାତ୍ରିମହିଳା ପୃଥିବୀ

pratiṣṭhāpya yena bhagavāṁś tenañjalim praṇamya bhaga-  
व ग श भ अ र न ग त श न र क श व ग श न ग-  
vantam gāthābhīr abhyaṣṭāvīt :

व ग ग ग ग ग ग ग ग ग :

於是長者子寶積。即於佛前以偈頌曰

śubhaśuddhakamalavarapatraviśālanetra

श श श श श श श श श श श श श श श श श श श

śuddhāśayā śamathapāramitāgraprāpta/

श श श श श श श श श श श श श श श श श श /

śubhakarmasamcaya viśālaguṇāprameya

श श क श स म य श श श श श श श श श श श श

vandāmi tvāṁ śramaṇaśāntipathapraṇetum // 1 //

व श श श श श श श श श श श श श श श श श श श

目淨脩廣如青蓮 心淨已度諸禪定  
久積淨業稱無量 導眾以寂故稽首

paśyatha ṛddhi puruṣarṣabhanāyakasya

प श श श श श श श श श श श श श श श श श श

samdrśyate sugatakeṣetravarapratrakāśah/

स द श श श श श श श श श श श श श श श श /

amṛtamgama ca varadharmakathā udārā

म म श श श श श श श श श श श श श श श श श

sā sarva śrūyati ito gaganatalātaḥ // 2 //

स ते श्रूयते तो गगनाता:

既見大聖以神變 普現十方無量土  
其中諸佛演說法 於是一切悉見聞

dharmaṇa te jitam idam varadharmaṇyam

दर्थम् ते जितम् तो वरदर्थम् राज्यम्

dharmaṁ dhanam ca dadase jagato jitāre/

दर्थं दण्डं एव दर्थदार्थं राजा लोकाः/

dharmaprabhedakuśalam paramārthadarśin

दर्थप्रबेदकुशलं परमार्थदर्शिन्

dharmaśvaram śirasi vandami dharmarājam // 3 //

दर्थश्वरं शिरं वदमि दर्थराजम्

法王法力超群生 常以法財施一切  
能善分別諸法相 於第一義而不動  
已於諸法得自在 是故稽首此法王

na ca nāma asti na ca nasti giram prabhāśi

न एव नामं अस्ति न एव नास्ति गिरम् प्रभाशि

hetum pratītya imi saṃbhavi sarvadharmaḥ/

हेतुं प्रतीत्या इमि सम्भवि सर्वधर्मः/

naivatra ātmana ca kāraku vedako vā

न एव आत्मा च कारकु वेदाको वा

na ca karmu naśyati śubham aśubham ca kiṃcit // 4 //

न एव कर्मु न नाश्यति शुभम् अशुभम् च किंचित्

說法不有亦不無 以因緣故諸法生  
無我無造無受者 善惡之業亦不亡

māras tvayastu vijitas sabalo munīndraḥ

मारस त्वयस्तु विजितस्तु सबलो मुनीन्द्रः

prāptā śivā amṛtaśāntavarāgrabodhiḥ/

प्राप्ता शिवा अमृतशान्तवराग्रभूद्धिः/

yasminn avedita na cittamanaḥpracārā

यस्मिन्न अवेदिता न चित्तमानःप्राचारा

sarvakutīrthikagaṇāś ca na yānti gāham // 5 //

सर्वकुर्तीर्थिकगणाश्च च न यान्ति गाहम्

始在佛樹力降魔 得甘露滅覺道成  
已無心意無受行 而悉摧伏諸外道

cakram ca te triparivarti bahuprakāram

चक्रं च ते त्रिपरिवर्ति बहुप्रकारम्

prāvartitam praśamanam prakṛtīśuddham/

प्रावर्तितम् प्रशमनम् प्रकृतीशुद्धम्/

pratyakṣa devamanujādbhutadharmaṇījā

प्रत्यक्ष देवमनुजाद्भुतधर्मराजा

ratnāni trīṇi upadarśita tatra kāle // 6 //

रत्नानि त्रीणि उपदर्शिता तत्र काले

三轉法輪於大千 其輪本來常清淨  
天人得道此爲證 三寶於是現世間

ye tubhya dharmaratanena vinīta samyak

ये तुभ्ये धर्मरतनेन विनीते सम्यक्

teṣām akalpana punah satate praśāntā/  
**ତେଷାମ୍ ଅକଲପନ ପୁନଃ ସତାତ ପ୍ରଶାନ୍ତା/**  
 vaidyottamam maraṇajātijarāntakāriṁ  
**ବୈଦ୍ୟୋତ୍ତମାମ ମରାଣଜାତିଜାରାନ୍ତକାରିମ୍**  
 śirasā nato 'smi guṇasāgaram aprameyam // 7 //  
**ଶିରାସା ନାତ ଅସମୀୟ ଗୁଣସାଗରମ୍ ଅପ୍ରମେୟମ୍**  
 以斯妙法濟群生 一受不退常寂然  
 度老病死大醫王 當禮法海德無邊  
 satkārasatkṛta na vedhasi merukalpa  
**ସତ୍କାରସତ୍କୃତ ନ ବେଧସି ମେରୁକଳପ**  
 duḥśīlaśīlavati tulyagatādhimaitrī/  
**ଦୁଃଖିଲାଶୀଲାଵତି ତୁଳ୍ୟଗତାଧିମାଇତ୍ରୀ/**  
 gaganaprakāśamanase samatāvihārī  
**ଗଗନ ପ୍ରକାଶମନେ ସମତାଵିହାରୀ**  
 ko nāma satvaratane 'smi na kuryu pūjām // 8 //  
**କୋ ନାମ ସତଵରତାନେ ଅସମୀୟ ପୂଜାମ୍**  
 毀譽不動如須彌 於善不善等以慈  
 心行平等如虛空 孰聞人賣不敬承  
 今奉世尊此微蓋 於中現我三千界  
 諸天龍神所居宮 乾闢婆等及夜叉  
 悉見世間諸所有 十力哀現是化變  
 衆覩希有皆歎佛 今我稽首三界尊  
 samāgatā te janatā mahāmune  
**ସମାଗତା ତେ ଜାନତା ମହାମୁନେ**  
 mukham udīkṣanti prasannamānasā/  
**ମୁଖ ଉଦିକ୍ଷଣ୍ଟି ପ୍ରସାନ୍ନମାନସା/**

sarve ca paśyanti jinam̄ purastāj

ଶରୀର ପଞ୍ଚମ ଲିଙ୍ଗ ଧରନ୍ତରୁ

jinasya āvenīkabuddhalakṣaṇam // 9 //

ଶରୀର ମହାକଷେତ୍ରକଣ୍ଠମୁ

大聖法王衆所歸 淨心觀佛靡不欣  
各見世尊在其前 斯則神力不共法

ekām̄ ca vācam̄ bhagavān̄ pramuñcase

ଏକାମ୍ବର ପରିଷଦ ସମ୍ମରଣ

nānārutam̄ ca pariṣad̄ vijānati

ନାନାରୂତ ର ପରିଷଦ ଜାନନ୍ତି

yathāsvakam̄ cartha vijānate jano

ଯଥାସକ ରଥ ଜାନନ୍ତି ଜାନ

jinasya āvenīkabuddhalakṣaṇam // 10 //

ଶରୀର ମହାକଷେତ୍ରକଣ୍ଠମୁ

佛以一音演說法 衆生隨類各得解  
皆謂世尊同其語 斯則神力不共法  
佛以一音演說法 衆生各各隨所解  
普得受行獲其利 斯則神力不共法

ekāya vācāya udīritāya

ଏକାୟ ବାଚାୟ ଉଦିରିତାୟ

vāsesi eke apare nivid�asi/

ରମ୍ଭ ଏକ ମଧ୍ୟ ନାୟକୁଳୀ/

ākāṅkṣatām̄ kāṅkṣa śamesi nāyako

ଅକାଙ୍କ୍ଷାମ କାଙ୍କ୍ଷା ଶମ୍ଭ ନାୟକ

jinasya āvenīkabuddhalakṣaṇam // 11 //

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

佛以一音演說法 或有恐畏或歡喜  
或生厭離或斷疑 斯則神力不共法

vandāmi tvāṁ daśabala satyavikramam

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

vandāmi tvām abhayagatam viśāradam/

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍ /

dharmeṣu āvenīkaniścayam gatam

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

vandāmi tvām sarvajagatprañāyakam // 12 //

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

稽首十力大精進 稽首已得無所畏  
稽首住於不共法 稽首一切大導師

vandāmi samyojanabandhanacchidam

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

vandāmi tvām pāragatam sthale sthitam/

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍ /

vandāmi khinnasya janasya tārakam

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

vandāmi samsāragatāv aniśritam // 13 //

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦକ୍ଷଣମ୍

稽首能斷衆結縛 稽首已到於彼岸  
稽首能度諸世間 稽首永離生死道

satvair samādhānagataṁ gatīgataṁ

सत्त्वैर् समाधानगतं गतिगतं

gatīsu sarvāsu vimuktamānasam/

गतिषु सर्वासु विमुक्तमानसम्/

jaleruham vā salile na lipyase

जाले रुहं वा सलीले न लिप्याशे

niṣevitā te munipadma śūnyatā // 14 //

निषेविता ते मूलिपद्मा शून्यता

悉知衆生來去相 善於諸法得解脫

不著世間如蓮華 常善入於空寂行

vibhāvitā sarvanimitta sarvaśo

विभाविता सर्वनिमित्ता सर्वशो

na te kahimcit prañidhāna vidyate/

न ते कहिम्चित् प्राणिधाना विद्यते/

acintiyam buddhamahānubhāvam

अस्तिथं इति महानुभावं

vande 'ham ākāśasamaṁ aniśritam // 15 //

वादे 'हम आकाशसमां अनिश्रितम्

達諸法相無罣礙 稽首如空無所依

## § 11

atha ratnākaro licchavikumāro bhagavantam

अथ रत्नाकरो लिच्छविकुमारो भगवान्तम्

ābhīr        gāthābhīr        abhiṣṭutya        bhagavantam        etad  
 ଅଭିରୁ      ଗାଥାଭିରୁ      ଅଭିଷ୍ଟୁତ୍ୟ      ବହାଵନ୍ତମୁ      ଏତଦୁ  
 avocat        : imāni        bhagavan        pañcamātrāṇi        licchaviku-  
 ଅଭିରୁ : ଓମଳେ      ବହାଵନ୍ତୁ      ପଞ୍ଚମାତ୍ରାଣୀ      ଲିଚ୍ଛବିକୁ-  
 māraśatāni        sarvāṇy        anuttarāyām        samyaksambodhau        sampra-  
 ମରାଶତାନୀ      ସର୍ଵାଣୀ      ଅନୁତାର୍ୟାଂ      ସମ୍ୟାକସମ୍ବଦ୍ଧାନୀ      ସମ୍ପର୍କ-  
 sthitāni/        tāni        cemāni        buddhakṣetrapariśuddhim        pariprccha-  
 ଶ୍ରୀଗତ୍ତ/ଗତ୍ତ      ବ୍ୟବମଳେ      ଶହୁକରପତ୍ରଶିଖୁଁ      ପତ୍ରପୁଷ୍କ-  
 nti —        katamā        bodhisatvānām        buddhakṣetrapariśuddhir  
 ତ୍ରୀ —        କତମ        ବ୍ୟବମଳାନୀ      ଶହୁକରପତ୍ରଶିଖୁଁ  
 iti/        tat        sādhu        bhagavan        deśayatu        tathāgato        'mīśām  
 ଓତ୍ତ/ଗତ୍ତ      ସାଧୁ      ବହାଵନ୍ତୁ      ତଥାଗତୁ      ଗତମାନ୍ତିମୀଳାନୀ  
 bodhisatvānām        buddhakṣetrapariśuddhim/  
 ବ୍ୟବମଳାନୀ      ଶହୁକରପତ୍ରଶିଖୁଁ  
 evam        ukte        bhagavān        ratnākarāya        licchavikumā-  
 ଦାମ୍ଭୁ        ତଥା      ବହାଵନ୍ତୁ      ରତ୍ନାକରାୟ      ଲିଚ୍ଛବିକୁମା-  
 rāya        sādhukāram        adāt        : sādhu        sādhu        kumāra/ sādhu  
 ରାୟ ସାଧୁକାରମୁ      ଅଭିରୁ : ସାଧୁ      ସାଧୁ      କୁମାର/ ସାଧୁ  
 khalu        punas        tvam        kumāra        yas        tvam        buddhakṣetrapariśu-  
 ଗତ୍ତ ଧରମୁ      ବନ୍ଦମାରୁ      ଧରମୁ      ବନ୍ଦମାରୁ/ ଧରମୁ

ddhim ārabhya tathāgatam pariprcchasi/ tena hi kumāra  
**କୁମୁ ଶର୍ଣ୍ଣ ଗଧଗାତ ପରିପ୍ରଚ୍ଛାସ/ତେ ହି କୁମାର**  
 śṛṇu sādhu ca suśṭhu ca manasikuru/ bhāsiṣye 'ham te  
**ଶୃଣୁ ସାଦୁ ଏ ଶୁଷ୍ଟୁ ଏ ମନୀକୁରୁ/ବହାସିୟେ ହାମ ତେ**  
 yathā bodhisatvānām buddhakṣetrapariśuddhim ārabhya/  
**ଯଥା ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵାନାମ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରପରିଶୁଦ୍ଧିମ ଆରବ୍ୟା/**  
 sādhu bhagavan iti ratnākaro licchavikumāras  
**ସାଦୁ ବହାଗାନ ଇତି ରତ୍ନାକାରୋ ଲିଚ୍ଛବିକୁମାରସୁ**  
 tāni ca pañcamātrāṇi licchavikumāraśatāni bhagavataḥ  
**ତାନି ଏ ପଞ୍ଚମାତ୍ରାଣି ଲିଚ୍ଛବିକୁମାରାଶତାନି ବହାଗବାତାଃ**  
 pratyāśrauṣuh/  
**ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରାସୁଃ/**

bhagavāṁś teṣām etad avocat :

**ବହାଗାନ ପଞ୍ଚମ ପାତ୍ର ଶର୍ଣ୍ଣରୁ:**

爾時長者子寶積。說此偈已白佛言。世尊。是五百長者子。皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。唯願世尊。說諸菩薩淨土之行。佛言。善哉寶積。乃能爲諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。於是寶積及五百長者子。受教而聽。

## § 12

satvakṣetram kulaputra bodhisatvasya buddhakṣetram/  
**ସତ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରମ କୁଳପୁତ୍ର ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵସ୍ୟା ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରମ/**  
 tat kasya hetoh/yāvantam bodhisatvah satvesupacayam  
**ତତ୍ କଷ୍ୟ ହେତୋ/ୟାଵାଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵାଃ ସତ୍ଵେଶୁପାଚୟାମ**  
**ତତ୍ କଷ୍ୟ ହେତୋ/ୟାଵାଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵାଃ ସତ୍ଵେଶୁପାଚୟାମ**

karoti tāvad buddhakṣetram parigṛhṇāti/yādr̥śah satvānām  
करोति तावद् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/याद्रशः सत्वानां  
vinayo bhavati tādr̥śam buddhakṣetram parigṛhṇāti/ yādr-  
विनयो भवति ताद्रशम् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/याद्र-  
śena buddhakṣetrāvatāreṇa satvā buddhajñānam avatara-  
शेना बुद्धक्षेत्रावतारेणा सत्वा बुद्धज्ञानम् अवतार-  
ताद्रशम् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/याद्रशेना बुद्धक्षे-  
त्रावतारेणा सत्वानाम् āryākārāṇīndriyāṇy utpadyante  
ताद्रशम् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/याद्रशेना बुद्धक्षे-  
त्रावतारेणा सत्वानाम् आर्याकाराणीन्द्रियाण्य उत्पद्यान्ते  
ताद्रशम् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/तत कस्य हेतोऽपि  
ताद्रशम् बुद्धक्षेत्रम् परिगृह्णाति/तत कस्य हेतोऽपि/  
satvārthanirjātam hi kulaputra bodhisatvānām buddhakṣetra-  
सत्वारथनिर्जातम् हि कुलपुत्र बोधिसत्वानाम् बुद्धक्षेत्रा-  
म्/tadyathā ratnākara yādr̥śam icched ākāśam māpa-  
म्/तद्यथाऽरत्नाकरा याद्रशम् इच्छेऽकाशम् मापा-  
यितुम् tādr̥śam māpayeta, na cakāśam śakyate māpayitum  
ताद्रशम् मापयेत्, न चकाशम् शक्यते मापयितुम्  
अतुं गत्वा भवति अतुं गत्वा भवति अतुं गत्वा भवति  
nāpy alamkartum/ evam eva ratnākara ākāśasa-  
प्त्वा भवति अतुं गत्वा भवति अतुं गत्वा भवति

mān sarvadharmañ jñātvā, yādrśam icched bodhisatvah  
 मान सर्वधर्मान् ज्ञात्वा, याद्रशम् इच्छेऽपि बोधिसत्त्वः  
 satvaparipākāya buddhakṣetram māpayitum tādrśam  
 सत्त्वपरिपाकाय बुद्धक्षेत्रं मापयितुम् ताद्रशम्  
 buddhakṣetram māpayati, na ca buddhakṣetrākāśatā  
 बुद्धक्षेत्रं मापयति, न च बुद्धक्षेत्राकाशता  
 śakyam māpayitum napy alamkartum/  
 शक्यम् मापयितुम् नप्य अलम्कर्तुम्/

佛言。寶積。衆生之類是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化衆生而取佛土。隨所謂伏衆生而取佛土。隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土。隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土。所以者何。菩薩取於淨國。皆爲饒益諸衆生故。譬如有人欲於空地造立宮室隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩如是。爲成就衆生故願取佛國。願取佛國者非於空也。

### § 13

api ca ratnākara,  
 अभिरत्नाकर,  
 āśayakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya  
 असायक्षेत्रं बोधिसत्त्वस्य बुद्धक्षेत्रं, तस्य  
 bodhiprāptasyaśāthā amāyāvinah satvā buddhakṣetra upapa-  
 र्त्तेऽपि भूमिं समाप्तिः सत्त्वं बुद्धक्षेत्रं उपाप-  
 dyante/  
 द्यन्ते/

adhyāśayakṣetram kulaputra bodhisatvasya buddhakṣetra-  
म शुभ यक्ष एव दुर्लभ विषय सुख इति-  
m, tasya bodhiprāptasya sarvakuśalasaṁbhāropacitāḥ satvā  
म्, गतु विषय प्रसु भवति शुभ अपि भवति सह  
buddhakṣetre saṁbhavanti/

### ४ इति भावणी /

prayogakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya  
प्रयोगक्षेत्रं विषय सुख इति इति, गतु  
bodhiprāptasya sarvakuśaladharmopasthitāḥ satvās tatra  
विषय प्रसु भवति शुभ अपि भवति सह मृत  
buddhakṣetre upapadyante/

### ५ इति उपप्रकृष्टि /

udāro bodhisatvasya bodhicittotpādo buddhakṣetram,  
उदार विषय सुख विषय उपप्रकृष्टि इति इति,  
tasya bodhiprāptasya mahāyānasamprasthitāḥ satvās tatra  
गतु विषय प्रसु महायान सम्प्रस्थित भवति मृत  
buddhakṣetre saṁbhavanti/

### ६ इति भावणी /

寶積。當知直心是菩薩淨土。菩薩成佛時不詔衆生來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時具足功德衆生來生其國。菩提心是菩薩淨土。菩薩成佛時大乘衆生來生其國。

dānakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhi-  
दानक्षेत्रं विषय सुख इति इति, गतु विष-

prāptasya sarvaparityāginaḥ satvās tatra buddhakṣetre

प्राप्तशु चर्तवयुक्तिः महाशुद्धय वृद्धक्षेत्रे

sambhavanti/

संकलितः/

śīlakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhi-

शाश्वतं वालभाशु वृद्धक्षेत्रम्, गच्छ वाल-

prāptasya sarvābhiprāyasampannā daśakuśalakarmapathasam-

प्राप्तशु चर्तवयसंपद दशशश्वलक्ष्मपदम्-

rakṣakāḥ satvās tatra buddhakṣetre sambhavanti/

रक्षकः महाशुद्धय वृद्धक्षेत्रे संकलितः/

kṣāntikṣetram kulaputra bodhisatvasya buddhakṣetram,

क्षणिक्षेत्रं क्षणिक्षेत्रं वालभाशु वृद्धक्षेत्रम्,

tasya bodhiprāptasya dvātrimśallakṣaṇālāmṛktāḥ kṣāntidamaśa-

गच्छ वालभाशु द्वाश्मालामृक्ताः क्षणिक्षेत्रम्-

mathapāramiprāptāḥ satvā buddhakṣetre sambhavanti/

मथपारमिप्राप्तः महा वृद्धक्षेत्रे संकलितः/

vīryakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhi-

शीघ्रक्षेत्रं वालभाशु वृद्धक्षेत्रम्, गच्छ वाल-

prāptasya sarvakuśalaparyeṣṭiṣ ārabdhavīryāḥ satvā

प्राप्तशु चर्तवयुक्तिः अरब्धवीर्यः महा

buddhakṣetre saṃbhavanti/

बुद्धक्षेत्रे संभवति /

dhyānakṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya

पूर्वक्षेत्रं बुद्धसत्त्वस्य बुद्धक्षेत्रम्, तस्य

bodhiprāptasya smṛtisaṃprajanyasamāhitāḥ satvā buddhakṣe-

त्वस्य पूर्वक्षेत्रं शूलसंप्राप्तसम्भवति सत्त्वं बुद्धक्षे-

tre saṃbhavanti/

बुद्धक्षेत्रं /

prajñākṣetram bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya

प्रज्ञाक्षेत्रं बुद्धसत्त्वस्य बुद्धक्षेत्रम्, तस्य

bodhiprāptasya samyaktvaniyatāḥ satvā buddhakṣetre

त्वस्य पूर्वक्षेत्रं सम्यक्त्वनियताः सत्त्वं बुद्धक्षेत्रं

saṃbhavanti/

संभवति /

布施是菩薩淨土。菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國。忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國。精進是菩薩淨土。菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時正定衆生來生其國。

catvāry apramāṇāni ca bodhisatvasya buddhakṣetram,

॒ चत्वार्य अप्रमाणानि च बुद्धसत्त्वस्य बुद्धक्षेत्रम्,

tasya bodhiprāptasya maitrīkaruṇāmuditopekṣāvihāriṇah

तस्य त्वस्य पूर्वक्षेत्रं खण्डीकरुणामृतोपेक्षाविहारिणः

satvā buddhakṣetre saṁbhavanti/

सत्त्वा बुद्धक्षेत्रे सम्भवन्ति /

catvāri samgrahavastūni kulaputra bodhisatvasya

चत्वारि समग्रहवस्तुनि कुलपुत्र बодхисат्वास्या

buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya sarvavimuktisamgrhītāḥ

बुद्धक्षेत्रम्, तस्य बोधिप्राप्तस्या सर्वविमुक्तिसमग्रहीताः

satvā buddhakṣetre saṁbhavanti/

सत्त्वा बुद्धक्षेत्रे सम्भवन्ति /

upāyakauśalyam bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya

उपायकौशल्यम् बोधिसत्वास्या बुद्धक्षेत्रम्, तस्य

bodhiprāptasya sarvopāyamāṁsākuśalāḥ satvā buddhakṣetre

बोधिप्राप्तस्या सर्वोपायमांसाकुशलाः सत्त्वा बुद्धक्षेत्रे

saṁbhavanti/

सम्भवन्ति /

saptatrimśad bodhipakṣā dharmā bodhisatvasya buddha-

सप्तत्रिंशक्षणपक्ष धर्म बोधिसत्वास्या बुद्ध-

kṣetram, tasya bodhiprāptasya samyaksmṛtyupasthānasamya-

क्षेत्रम्, तस्य बोधिप्राप्तस्या सम्यक्स्मृत्युपस्थानसम्या-

kprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgavidhijñāḥ satvā

क्षेत्रम्, तस्य बोधिप्राप्तस्या सम्यक्स्मृत्युपस्थानसम्या-

buddhakṣetre saṁbhavanti/

ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସଂଭବତି/

四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國。四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國。方便是菩薩淨土。菩薩成佛時於一切法方便無礙衆生來生其國。三十七道品是菩薩淨土。菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國。

parināmanācittam bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya

ପରିନାମାଚିତ୍ତମିତିଥିଲେମହାସୁ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରମୁ, ଗାଁ

bodhiprāptasya sarvaguṇālamkāram buddhakṣetram dr̄syate/

ବୁଦ୍ଧପରାପ୍ରାପ୍ତମାତ୍ରାମହାକାରମିତିଥିଲେମହାସୁ

aṣṭākṣaṇapraśamadeśanā kulaputra bodhisatvasya

ମଧ୍ୟକୃତ୍ସମଦଶମାତ୍ରା କୁଳପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧପରାପ୍ରାପ୍ତମାତ୍ରା

buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya sarvāpāyasamucchinnam

ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରମୁ, ଗାଁ ବୁଦ୍ଧପରାପ୍ରାପ୍ତମାତ୍ରା ମରାପଦ୍ୟମଶ୍ଵରମୁ

aṣṭākṣaṇavigataṁ buddhakṣetram saṁbhavanti/

ମଧ୍ୟକୃତ୍ସମଦଶମାତ୍ରା ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସଂଭବତି/

svayam śikṣāpadeśu vartamānā parāpattyacodanatā

ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସପଦ୍ଧତି ଦାତାମାତ୍ରା ପରାପତ୍ତ୍ୟାଦିଦାତା

bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasyapattiśabdo

ବୁଦ୍ଧପରାପ୍ରାପ୍ତମାତ୍ରା ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରମୁ, ଗାଁ ବୁଦ୍ଧପରାପ୍ରାପ୍ତମାତ୍ରାପତ୍ରମାତ୍ରା

'pi buddhakṣetre na saṁbhavati/

'ଏ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସଂଭବତି/

daśakuśalakarmapathapariśuddhiḥ        kulaputra bodhisatvāya  
 ଦଶକୁଶାଲକର୍ମପଥପରିଶୁଦ୍ଧିଃ କୁଳପୁତ୍ର ବୋଧି-  
 tvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya niyatāyuṣo  
 ତୁ ସୁଧାକଷେତ୍ରମ୍, ତୁ ବୋଧିପ୍ରାପ୍ତସୁ ନୀୟାୟୁଷୋ  
 mahābhoga brahmacāriṇah satyānuparivartinyā vācalamkṛtā  
 ମହାଭୋଗ ବ୍ରାହ୍ମଚାରୀନାହୁଁ ସତ୍ୟାନୁପରିବର୍ତ୍ତିନ୍ୟା ବାଚଳମକ୍ରତା  
 madhuravacanā abhinnaparsado bhinnasamdhānakuśalā<sup>1</sup>  
 ମଧୁରାବଚନା ଅଭିନ୍ନପର୍ଶଦୋ ବିଭିନ୍ନସମଧାନକୁଶଲା  
 īrṣyāvigateḥ avyāpannacittāḥ samyagdr̥ṣṭisamanvāgataḥ satvā  
 ଫର୍ଷ୍ୟାଵିଗତାଃ ଅବ୍ୟାପନ୍ନାଚିତ୍ତାଃ ସମ୍ୟାଗଦ୍ରଷ୍ଟିସମାନଵାଗତାଃ ସତ୍ୱା  
 buddhakṣetre saṁbhavanti/

### ସୁଧାକଷେତ୍ର ଅନୁବାତ /

回向心是菩薩淨土。菩薩成佛時得一切具足功德國土。說除八難是菩薩淨土。菩薩成佛時國土無有三惡八難。自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土。菩薩成佛時國土無有犯禁之名。十善是菩薩淨土。菩薩成佛時命不中夭。大富梵行所言誠諦。常以軟語眷屬不離。善和諍訟言必饒益。不嫉不恚正見衆生來生其國。

### § 14

iti hi kulputra, yāvanto bodhisatvāya prayogās  
 ତୁ ହି କୁଳପୁତ୍ର, ଯାଵାନ୍ତୋ ବୋଧିସତ୍ୱାୟ ପ୍ରୟୋଗାସ୍  
 tāvanta āśayāḥ/ yāvanta āśayās tāvanto 'dhyāśayāḥ/  
 ତାଵାନ୍ତ ଆଶ୍ୟା/ତାଵାନ୍ତ ଆଶ୍ୟାସ୍ ତାଵାନ୍ତ ଦ୍ଵ୍ୟାଶ୍ୟାଁ/  
 yāvanto 'dhyāśayās tāvantyo nidhyaptayah/yāvantyo nidhya-  
 ତାଵାନ୍ତ ଦ୍ଵ୍ୟାଶ୍ୟାସ୍ ତାଵାନ୍ତ ନିଦ୍ୟାପତ୍ୟାଁ/ତାଵାନ୍ତ ନିଦ୍ୟା-

ptayas tāvantyah pratipattayah/ yāvantyah pratipattayas  
प त्य सु ग र शः प्रति पत यः/ य र शः प्रति पत य सु  
tāvantyah pariṇāmanāh/ yāvantyah pariṇāmanās tāvanta  
ग र शः प र ल म रः/ य र शः प र ल म र सु ग र श  
upāyāh/ yāvanta upāyās tāvantyah kṣetrapariśuddhayah/  
उ प धः/ य र श उ प ध सु ग र शः क र प र ल श द धः/  
yādr̥ī kṣetrapariśuddhis tādr̥ī satvapariśuddhiḥ/ yādr̥-  
श श श क र प र ल श द ध सु ग र श श र प र ल श द धः/ य र -  
śī satvapariśuddhis tādr̥ī jñānapariśuddhiḥ/ yādr̥ī  
श श श र प र ल श द ध सु ग र श श र प र ल श द धः/ य र श  
jñānapariśuddhis tādr̥ī deśanāpariśuddhiḥ/ yādr̥ī  
श श श र प र ल श द ध सु ग र श श र प र ल श द धः/ य र श  
deśanāpariśuddhis tādr̥ī jñānapratipattipariśuddhiḥ/  
श श श र प र ल श द ध सु ग र श श र प र ल श द धः/ य र श  
yādr̥ī jñānapratipattipariśuddhis tādr̥ī svacittapa-  
रिशुद्धिः/ श श श र प र ल श द ध सु ग र श श र प  
रिशुद्धिः/

tasmāt tarhi kulaputra buddhakṣetram pariśodhayitu-  
ग श श ग र श श र प र ल श द ध सु ग र श श र प

kāmena bodhisatvena svacittapariśodhane      yatnah̄ karaṇī-  
 କାମେନା ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେନା ସ୍ଵାଚିତ୍ତପରିଶୁଦ୍ଧନେ      ଯତନାହ୍ କାରଣୀ-  
 yaḥ/ tat      kasya hetoh̄/ yādr̄sī      bodhisatvaya cittapariśu-  
 ଯାହ୍/ ତାତ୍      କାସ୍ୟ ହେତୋ/ ଯାଦ୍ରୀସି      ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵେଯା ଚିତ୍ତପରିଶୁ-  
 ddhis tādr̄sī      buddhakṣetrapariśuddhiḥ sambhavati/  
 ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରପରିଶୁଦ୍ଧିଃ ସମ୍ବହାତି/

如是寶積。菩薩隨其直心則能發行。隨其發行則得深心。隨其深心則意調伏。隨意調伏則如說行。隨如說行則能迴向。隨其迴向則有方便。隨其方便則成就衆生。隨成就衆生則佛土淨。隨佛土淨則說法淨。隨說法淨則智慧淨。隨智慧淨則其心淨。隨其心淨則一切功德淨。是故寶積。若菩薩欲得淨土當淨其心。隨其心淨則佛土淨。

### § 15

atha buddhānubhāvenayuṣmataḥ śāriputrasyaitad abha-  
 ଅଥ ବୁଦ୍ଧାନୁଭାବେନ୍ୟୁଷମତାଃ ଶାରୀପୁତ୍ରାସ୍ୟାଇତାଦ ଅଭା-  
 vat : yadi yādr̄sī cittapariśuddhis tādr̄sī bodhi-  
 ବାତ : ଯାଦି ଯାଦ୍ରୀସି ଚିତ୍ତପରିଶୁଦ୍ଧିଃ ତାଦ୍ରୀସି ବୋଧି-  
 ତାତ୍ : ଯାହ୍ ଯାତ୍ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରପରିଶୁଦ୍ଧିଃ ସମ୍ବହାତି, ତାତ୍ ମା ଆହା-  
 ମହାଶୁଦ୍ଧି ଏହକ୍ଷେତ୍ରପରିଶୁଦ୍ଧିଃ ସମ୍ବହାତି, ତାତ୍ ମା ମହାଶୁ-  
 va bhagavataḥ śākyamuner bodhisatvacaryāṁ carataś  
 ମହାଶୁଦ୍ଧିଃ ଶାକ୍ୟମନେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵକାରୀମ କାରାତ୍  
 cittam apariśuddham yenedam buddhakṣetram evam  
 ଚିତ୍ତମ ଅପରିଶୁଦ୍ଧମ ଯେନେଦାମ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରମ ଏବମ  
 ବୁଦ୍ଧମ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥରେ ଏହକ୍ଷେତ୍ରମ ଏହମ୍ଭୁତ  
 apariśuddham samdṛsyate/  
 ଅପରିଶୁଦ୍ଧମ ସମଦୃଷ୍ୟାସି/

atha khalu bhagavān āyuṣmataḥ śāriputrasya ceta-  
**ଶବ୍ଦ ପରିଚୟ** ନଗରୀ ଅଧିଷ୍ଠତା: ହେଉଥିବା ଏକ-  
 saiva cetaḥparivitarkam ājñāyayuṣmantam śāriputram  
**ଶବ୍ଦ ପରିଚୟ** ନଗରୀ ଅଧିଷ୍ଠତା: ହେଉଥିବା  
 etad avocat : tat kim manyase, śāriputra mā  
**ଶବ୍ଦ ପରିଚୟ** : ଏହା କୁଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜମ, ହେଉଥିବା  
 āhaiva sūryācandramasāv apariśuddhau yaj jātyandho na  
**ଶବ୍ଦ ପରିଚୟ** ମୁହଁର ଅମ୍ବର ଅପରିଶ୍ରଦ୍ଧି ଧର୍ମ ରାଶିର ଏ  
 paśyati/

**ପଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ /**

āha : no hidam bhagavan jātyandhāparādha esa  
**ଶବ୍ଦ :** ଏ ଜ୍ଯୋତିଷ ନଗରୀ ରାଶିର ପରାଦ ଏଥ  
 na sūryacandramasoh/

**ସତ୍ତ୍ୱ ମୁହଁର ଅମ୍ବର /**

āha : evam eva śāriputra satvānām ajñānā-  
**ଶବ୍ଦ :** ଏହାମୁ ଏହା ହେଉଥିବା ମହାନମୁ ଶକ୍ତି-  
 parādha esa yas tathāgatasya buddhakṣetraguṇālamkāra-  
 ପରାଦ ଏଥ ଧର୍ମ ରାଶିର ଶବ୍ଦ ଏହାମୁ ଶକ୍ତି-  
 vyūham kecit satvā na paśyanti, na tatra tathāgatasya-  
 ଶକ୍ତି କବିତ୍ବ ମହା ଏ ପଞ୍ଚମୀ, ଏ ଏ ରାଶିର ଶବ୍ଦ-

parādhah/pariśuddham hi sāriputra tathāgatasya buddhakṣe-

पराधः/परिशुद्धं हि सारिपुत्र तथागतस्य बुद्धक्षेत्रम्/परिशुद्धं हि सारिपुत्र तथागतस्य बुद्धक्षेत्रम्

tram yūyam punar idam na paśyatha/

अथ एव तदेव पश्यते/

爾時舍利弗。承佛威神作是念。若菩薩心淨則佛土淨者。我世尊本爲菩薩時意豈不淨。而是佛土不淨若此。佛知其念即告之言。於意云何。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰不也。世尊。是盲者過非日月咎。舍利弗。衆生罪故不見如來佛土嚴淨。非如來咎。舍利弗。我此土淨而汝不見。

### § 16

atha khalu jaṭī brahmā sthaviram sāriputram etad

अथ एव जटी ब्रह्म स्थविरम् सारिपुत्रम् एतद्

avocat : mā bhadantaśāriputra tathāgatasyapariśuddham

सत्तरात्रः महात्मपरिशुद्धेन तथागतस्य परिशुद्धं

buddhakṣetram idam vyāhārṣīt/ pariśuddham hi bhadantaśā-

ष्टुक्षेत्रम् तदेव त्रूपाद्वारा/परिशुद्धं हि महात्म-

riputra bhagavato buddhakṣetram/ tadyathapi nāma sāri-

पुत्र एव तदेव तदेव तदेव तदेव/तदेव तदेव तदेव

putra vaśavartinām devānām bhavanavyūhāḥ/ īdṛśān vayam

पुत्र एव तदेव तदेव तदेव तदेव/तदेव तदेव तदेव

buddhakṣetraguṇavyūhān bhagavataḥ śākyamuneh paśyāmaḥ/

पुत्र एव तदेव तदेव तदेव तदेव/तदेव तदेव तदेव

atha khalu sthavirah sāriputro jaṭinām brahmāṇam

अथ एव श्वेतः परिशुद्धेन तदेव तदेव

etad avocat : vayam punar brahman imām mahā-  
 एतद् अवोक्तः पुनः ब्रह्म इमां महा-  
 pr̥thivīm utkūlanikūlām kaṇṭakaprapātagiriśekharaśva-  
 पृथिवीम् उक्तुलनिकूलं कण्टकप्रपातगिरीशेखराश-  
 bhragūthodigallapratipūrṇām paśyāmah/  
 भ्रगूथोदिगलप्रतिपूर्णां पश्यामः /  
  
 jaṭī brahmaha : nūnam bhadantaśāriputrasyotkūlani-  
 जटी ब्रह्महा : नूनं भदन्ताशारिपुत्रस्योत्कूलि-  
 kūlam cittam apariśuddhabuddhajñānāśayam yenedrśam  
 कूलं चित्तम् सपुत्रेषु दृष्टिक्षेत्रं अवश्यं  
 buddhakṣetram paśyasi/ ye punas te bhadantaśāriputra  
 दृष्टिक्षेत्रं पश्यसि/ ये पुनः ते भदन्ताशारिपुत्र-  
 bodhisatvāḥ sarvasatvasamacittāḥ pariśuddhabuddhajñānāśayā-  
 बोधिसत्त्वाः सर्वसत्त्वसमाचित्ताः परिशुद्धबुद्धज्ञानाशयाः-  
 s ta imam buddhakṣetram pariśuddham paśyanti/  
 श त इम बुद्धक्षेत्रं परिशुद्धम् पश्यन्ति /

爾時螺髻梵王語舍利弗。勿作是意。謂此佛土以爲不淨。所以者何。我見釋迦牟尼  
 佛土清淨。譬如自在天宮。舍利弗言。我見此土。丘陵坑坎荊棘沙礫。土石諸山穢  
 惡充滿。螺髻梵言。仁者心有高下。不依佛慧故。見此土爲不淨耳。舍利弗。菩薩  
 於一切衆生。悉皆平等。深心清淨。依佛智慧則能見此佛土清淨。

## § 17

atha bhagavān pādāṅguṣṭhenā imam trisāhasramahā-  
 अथ बहवान् पादाङ्गुष्ठेनां इमां त्रिसाहस्रमहा-

sāhasram lokadhātum parāhanti sma/ atha khalu tasmin  
ସନ୍ଦର୍ଭ ହକ୍କଟୁ ପରାହଣୀ ଶ୍ରୀ/ମଧ୍ୟ ଗତି ଗତିଶ୍ରୀ  
samaye 'yam̄ trisāhasramahāsāhasro lokadhātūr ane-  
ମମଥ 'ଥୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦର୍ଭ ହକ୍କଟୁ ମଧ୍ୟ-  
karatnaśatasahasrasaṁcito 'nekaratnaśatasahasrapratya-  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଗ ମନ୍ଦର୍ଭ ମନ୍ଦିଳ 'ଥୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଗ ମନ୍ଦର୍ଭ ପତ୍ର-  
rpitah samsthito 'bhūt/ tadyathapi nāma ratnavyūhasya  
ଧାର: ମନ୍ଦିଳ 'କୁରୁ/ଗନ୍ଧାରା ରାମ ରତ୍ନଫୁଲମୁ  
tathāgatasyanantaguṇaratnavyūho lokadhātus tādrīśo  
ଗଧାଗ ଶୁଣ ମର୍ଗାର୍ଥ ଫୁଲ ହକ୍କଟୁ ଶୁଣ ଗନ୍ଧାରା  
'yam̄ lokadhātuh samdrīsyate sma/tatra sā sarvāvatī parṣa-  
'ଥୁ ହକ୍କଟୁ ମନ୍ଦିଳ ଶ୍ରୀ/ଗନ୍ଧାରା ମନ୍ଦର୍ଭ ପଥ-  
d āścaryaprāptā ratnapadmaniṣaṇṇam ātmānam samjānīte  
ରୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ରତ୍ନପତ୍ର ପତ୍ରମୁ ମନ୍ଦର୍ଭ ମନ୍ଦର୍ଭ  
sma/  
ଶ୍ରୀ/

於是佛以足指按地。即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有。而皆自見坐寶蓮華。

§ 18

tatra bhagavān āyuṣmantam śāriputram āmantrayate  
 ତରା ବହୁମନ୍ଦିର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାରୀପୁରମ ଆମନ୍ତ୍ରଯାତେ

sma : paśyasi tvam śāriputra imān buddhakṣetraguṇavyū-  
શી : પાશ્યાસી ત્વમઃ શારીપુત્ર ઇમાન બુદ્ધક્ષેત્રગુણવ્યુ-  
hān/

15

āha : paśyāmi/bhagavan adṛṣṭāśrutapūrvā ime  
 ଅନ୍ତଃ : ପଞ୍ଜୁଖୀରାଗାଦ୍ୟ ମହାଷ୍ଣାଧାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ  
 vyūhāḥ samdrśyante/

ଶାନ୍ତି ମନ୍ଦିର /

āha : īdrśam mama śāriputra sadā buddhakṣetram/  
अहः इद्रशं मम शारीपुत्र सदा बुद्धक्षेत्रम्/

hīnasatvaparipākāya tu tathāgata evam bahudoṣadu-  
क्षीरमसूपत्रपक्षय तथागत एवं बहुदोषदु-  
ṣṭam buddhakṣetram upadarśayati/ tadyathā śāriputra  
ष्टु बुद्धक्षेत्रम् उपदर्शयति / तद्यथा शारीपुत्र  
devaputrāṇām ekapātryāṁ bhuñjānānāṁ yathā puṇyopaca-  
र्कवधुराम् एकपात्रं भुञ्जानां यथा पूण्योपचा-  
yaviśeṣena sudhādevabhojanam upatiṣṭhataḥ, evam  
यत्तिथेण सुधादेवभोजनम् उपतिष्ठताः, एवम्  
eva śāriputra ekabuddhakṣetropapannā yathā cittapari-  
एव शारीपुत्र एकबुद्धक्षेत्रपपन् यथा चित्तपरि-

śuddhyā satvā buddhānām buddhakṣetraguṇavyūhān paśya-  
शुद्धा सत्त्वां बुद्धक्षेत्रगुणव्युहान् पश्य-  
nti/

४ /

佛告舍利弗。汝且觀是佛土嚴淨。舍利弗言。唯然世尊。本所不見。本所不聞。今佛國土嚴淨悉現。佛語舍利弗。我佛國土常淨若此。爲欲度斯下劣人故。示是衆惡不淨土耳。譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異。如是舍利弗。若人心淨便見此土功德莊嚴。

§ 19

asmin khalu punar buddhakṣetraguṇavyūhālamkāre  
अस्मिन् खलु पुनर् बुद्धक्षेत्रगुणव्युहालम्कारे  
samdarśyamāne caturaśīteḥ prāṇisahasrāṇām anuttarāyām  
सम्दर्श्यमाने चतुरशीतेः प्राणिसहस्राणाम् अनुत्तरायाम्  
samyaksam̄bodhau cittāny utpannāni/yāni ca tāni ratnāka-  
मध्यसंबोधौ चित्तानि उत्पन्नानि/यानि च तानि रत्नाका-  
reṇa licchavikumāreṇa sārdham pañca licchavikumāraśatā-  
याम् अगतानि तेषाम् अप्य अनुलोमिक्याह क्षान्तेह प्रतिला-  
भूत्वा अप्य अप्य अप्य अप्य अप्य अप्य अप्य  
mbho 'bhūt/  
भूत्वा /

當佛現此國土嚴淨之時。寶積所將五百長者子皆得無生法忍。八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

§ 20

atha bhagavān punar eva tām ḥddhim pratisam-  
 ଶବ୍ଦ ନଗରୀ ପୁରୁଷ ଏତ ଗୁଣ ହୁଏ ପାଇମ-  
 harati sma/ tataḥ punar evedam buddhakṣetram tatsvabhā-  
 ନରାମ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏତିରେ ସହକରଣ ଗୁଣ  
 vam eva samvṛtam, tatra śrāvakayānikānām devama-  
 ଗୁଣ ଏତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଣ, ଏହ ଶ୍ରୀ କଥା ଅଜଣା ଦେଖ-  
 nuṣyāṇām — anityā bata ime sarvasaṃskārā iti  
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଓ ମନ୍ତ୍ରଗୁଣ — ଶବ୍ଦ ନଗରୀ ପୁରୁଷ  
 viditvā dvātriṁśatā prāṇisahasrāṇām virajovigatamalam  
 ଧର୍ମଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ ପୁରୁଷଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ ପୁରୁଷ  
 dharmeṣu dharmacakṣur viśuddham/ aṣṭānām ca bhikṣusaha-  
 ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ  
 srāṇām anupādāyāsravebhyaś cittāni vimuktāni/ catu-  
 ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ  
 raśīteś ca prāṇisahasrāṇām udārabuddhadharmādhimu-  
 ରାଶୀଶ ଏ ପୁରୁଷଶବ୍ଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ  
 ktānām — viṭhapanapratyupasthānalakṣaṇāḥ sarvadhar mā iti  
 ପାଦ — ପୁରୁଷ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ ପାଦ  
 viditvanuttarasyām samyaksambodhau cittāny utpannāni // ୯ //  
 ଧର୍ମଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ ଧର୍ମଶବ୍ଦ // ୯ //

佛攝神足。於是世界還復如故。求聲聞乘三萬二千天及人。知有爲法皆悉無常。遠塵離垢得法眼淨。八千比丘不受諸法漏盡意解。

Buddhakṣetrapariśuddhinidānaparivartah prathamah //

बुद्धक्षेत्रपरिशुद्धिनिदानपरिवर्तह प्रथमः //

淨佛國土品

第一